

## कोर्स में शामिल होने के निर्देश

**ध्येय :-** फील्ड यूनिट के कार्मिको तथा प्रशिक्षण संस्थानो के प्रशिक्षको को अद्यतन नेविगेशनल ट्रेड्स की मदद से दक्ष नेविगेटर बनाना जिनका इस्तेमाल बल के परिचालन दक्षता बढ़ाने में की जा सके ।

**(A) उद्देश्य:-** प्रशिक्षण के समाप्ती पर प्रशिक्षु इस योग्य हो जायेंगे -

- 1) सर्वे ऑफ इंडिया का मैप तथा GIS के जरिये इलाके में भौगोलिक बनावट का विश्लेषण कर सके ।
- 2) नेविगेशन के उपकरण की सहायता से अनजान जगह पर दिन या रात में नेविगेट करने में दक्ष बनाना ।
- 3) जीआईएस साफ्टवेयर तथा सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से अभियान की योजना बनाना ।
- 4) अपडेट मोबाइल नेविगेशनल ऐप्स की मदद से नेविगेट करना ।

**(B)योग्यता:-**

1. सिपाही से सहा० कमान्डेंट तक
2. आयु- 40 वर्ष से कम
3. शैक्षिक योग्यता :-
  - क. भूगोल या विज्ञान संकाय के पृष्ठभूमि से
  - ख. कम से कम 10+2 पास
  - ग. इच्छुक
  - घ. बेसिक कम्प्युटर का ज्ञान हो ।
  - ङ. स्नातक या उससे उच्च शिक्षा वाले कार्मिक को वरीयता दी जाये ।
  - च. चिकित्सा श्रेणी - शेष- 1 हो ।
  - छ. उन कार्मिको को इस कोर्स हेतु नियुक्त नहीं किया जाए जिन्होंने स्वौच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए तीन माह पूर्व आवेदन किया हो या जिनका सेवाकाल 05 वर्ष से कम बाकी हो ।

**(C) अवधि :-** इस कोर्स की अवधि 08 सप्ताह की होगी। सभी प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण शुरू होने से एक दी पहले संस्थान में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रशिक्षण /कोर्स संबन्धित औपचारिकताएँ समय पर पूर्ण हो सके ।

(D) **ड्रेस तथा उपकरण** :- सभी प्रशिक्षु कोर्स से सम्बन्धित निम्न सामग्री/उपकरण अपने साथ लाना सुनिश्चित करे ।

- क. लाइट बेडिंग (मच्छरदानी सहित )
- ख. पीटी ड्रेस-02 जोड़ी , खाकी ड्रेस-02 जोड़ी, कम्बैट ड्रेस-02 जोड़ी, जंगल शूज -01 जोड़ी ।
- ग. पिटठू
- घ. मुफति ड्रेस ।

(E) **हथियार तथा अम्युनिशन**:- प्रशिक्षु को हथियार / अम्युनिशन लाने की आवश्यकता नहीं है ।

(F) **मैस एडवांस** :- सभी प्रशिक्षु को निम्नानुसार मैस एडवांस जमा करना होगा :-

1. राजपत्रित अधिकारी - Rs- 7000/-
2. अधीनस्थ अधिकारी- Rs- 5000/-
3. अन्य रैंक - Rs - 4000/-

(G) **शिवपुरी में आगमन** :- शिवपुरी, रेल तथा सड़क मार्ग से समुचित रूप से तथा ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा झांसी से सड़क मार्ग से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है । ग्वालियर तथा झांसी यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तथा इनकी दूरी यहाँ से क्रमशः 115 किमी तथा 109 किमी है । शिवपुरी में भी रेलवे स्टेशन है तथा यह ग्वालियर-इन्दौर-भोपाल रेलवे खण्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन इस रेल मार्ग पर रेल का आवागमन सीमित संख्या में होती है ।

(H) **स्थान / स्थिति** :- CIAT स्कूल, शिवपुरी रेलवे स्टेशन से 08 किमी की दूरी पर गुना की तरफ NH- 03 पर स्थित है । यह राजमार्ग AB रोड के नाम से भी जाना जाता है । यह संस्थान GR - 25° 27' 03.77" N तथा 77° 38' 52.95" E तथा समुद्र सतह से 1515 फिट (462 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है ।

(I) **मौसम** :- शिवपुरी कर्क रेखा के समीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है । यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा सूखा व शीत ऋतु में ठंडा तथा सूखा मौसम होता है । ग्रीष्म की शुरुआत मध्य अप्रैल माह से होकर मध्य जुलाई माह में समाप्त होती है । इस अवधि में तापमान 45 सेल्सियस तथा इसमें ऊपर भी चला जाता है ।

(J) **चिकित्सा प्रमाण पत्र** :- सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोर्स हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से फिट घोषित प्रमाण पत्र अपने वार्षिक मेडिकल जाँच रिपोर्ट के साथ संस्थान में आगमन पर प्रस्तुत करेगा ।

(K) **प्रशिक्षण से वापसी** :-

- क. आवश्यक योग्यात्मक मानदण्ड ( क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ) को पूरा न करने वाले अयोग्य कार्मिको को उनके यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा ।
- ख. जो प्रशिक्षु चिकित्सीय रूप से अयोग्य अथवा किसी गंभीर रोग से पीडित हो उन्हें कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी ।
- ग. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से 05 दिन से अधिक गैर हाजिर होने पर कोर्स से वापस किया जाएगा ।
- घ. प्रशिक्षुओ द्वारा किसी भी प्रकार से की गयी अनुशासनहीनता के कारण उन्हें वापस उनके यूनिट भेजा जा सकता है ।

(L) **छुट्टी** :- विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी ।

(M) **दस्तावेज** :-

- क. संचालन आदेश
- ख. पहचान पत्र
- ग . कोर्स हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र
- घ. हैल्थ कार्ड
- च. वापसी का रेलवे वारंट
- छ. केशलेस भुगतान के लिए एटीएम कार्ड
- ज. 02 पासपोर्ट आकार के फोटो

(N) **अन्य** :-

1. विलम्ब से रिपोर्ट करनेवाले प्रशिक्षणार्थियों पर कोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एयर वाउचर या रेलवे वारंट वापसी के लिए नहीं दिया जाएगा ।

3. विषय वस्तु से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया नियंत्रण कक्ष के दूरभाष न. 07492-225700 या Email ID [pplciatsvp@crpf.gov.in](mailto:pplciatsvp@crpf.gov.in) पर सम्पर्क किया जा सकता है ।